



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2017/माघ 10, 1938

No. 270]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2017/MAGHA 10, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2017

का.आ. 300(अ).—17.08.2006 को अधिसूचित तथा 16.5.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी), दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना की तारीख से एमएमआरडीए में उनके कार्यकाल तक, उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अधीन मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथारिटी (एमएमआरडीए) लाइन-2ए में मुख्य वैद्युत निरीक्षक तथा वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है:—

क्र. सं.	नाम (श्री)	पदनाम	के रूप में नियुक्त
1.	एस.सी. जिंदल	ईडी/कंसल्टेंसी/डीएमआरसी/दिल्ली	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
2.	संजीव कुमार	उप मुख्य वैद्युत अभियंता /यूजी/टीआर/दिल्ली	वैद्युत निरीक्षक
3.	आनंद कुमार	उप मुख्य वैद्युत अभियंता /टीआर/आरसी-1/दिल्ली	वैद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, एमएमआरडीए के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं और विद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में अथवा एमएमआरडीए के नियंत्रणाधीन/एमएमआरडीए से सम्बद्ध कार्यों और सभी वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपने-अपने कार्य निष्पादित करेंगे।

एमएमआरडीए यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त अधिकारी एमएमआरडीए में उन्हें सौंपे गये कार्यों को करने के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/5/2016-आरएण्डआर]

ज्योति अरोड़ा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF POWER

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2017

**S.O. 300(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17.08.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints following officers of Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), Delhi as Chief Electrical Inspector and Electrical Inspector for Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), Line-2A from the date of this Notification till their tenure in MMRDA, subject to fulfillment of the qualification and Condition mentioned in the above Rule:

S. No	Name	Designation	Appointed as
1.	S. C. Jindal	ED/Consultancy/DMRC/Delhi	Chief Electrical Inspector
2.	Sanjeev Kumar	Dy. CEE/UG/TR/Delhi	Electrical Inspector
3.	Anand kumar	Dy. CEE/TR/RC-1/Delhi	Electrical Inspector

The above mentioned officers shall exercise the powers and perform their respective functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operations within the areas occupied by the MMRDA or in respect of works and all electrical installations under the control of MMRDA / belonging to MMRDA as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

MMRDA will ensure that above officers will not be the Chief Electrical Inspector/Electrical Inspector in respect of the work assigned to them in MMRDA.

The persons appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider it necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/5/2016-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.